


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2802]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 18, 2013/अग्रहायण 27, 1935

No. 2802]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 18, 2013/AGRAHAYANA 27, 1935

विदेश मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2013

का.आ 3691(अ).— केंद्रीय सरकार संयुक्त राष्ट्र (सुरक्षा परिषद) अधिनियम, 1947 की धारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा संख्या के का. आ. 2505 (अ), तारीख 4 नवंबर, 2011 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित अप्रसार आदेश, 2011 के संबंध में सुरक्षा परिषद संकल्प 1929 (2010) के कार्यान्वयन में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम अप्रसार (संशोधन) आदेश, 2013 से संबंधित सुरक्षा परिषद संकल्प 1929 (2010) का कार्यान्वयन है।

यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. उक्त आदेश के, पैरा 2 में,

(क) उप- पैरा (iii) में "संकल्प 1737 (2006)", शब्द, अंक और कोष्ठकों के पूर्व, "अनुसूची 5 में यथाविनिर्दिष्ट" शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) उप-पैरा (iv) में "परिषद अथवा समिति द्वारा निर्धारित", शब्दों के बाद, "अनुसूची 5 में यथाविनिर्दिष्ट" शब्द तथा आंकड़े समावेशित किए जाएंगे;

(ग) उप-पैराग्राफ (ix) में आंकड़ों और कोष्ठकों "परिषद अथवा समिति द्वारा यह अवधारित", शब्दों के पूर्व "अनुसूची 5 में यथाविनिर्दिष्ट" शब्द तथा अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(घ) अनुसूची 4 के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची अंतःस्थापित की जाएगी अर्थात्:-

अनुसूची 5**उपाबंध****जब्त की गई आस्तियों और यात्रा प्रतिबंध के अध्यक्षीन व्यक्ति**

1. अजीम आगाजनी (**उर्फ अजीम आगाजनी**), क्यूओडीएस बल के कमांडर मेजर जनरल कासेम सोलेमानी के निदेश के अधीन गतिविधियां चलाने वाला आईआरजीसी-क्यूओडीएस बल का सदस्य, जिसे तारीख 18 अप्रैल, 2012 के संकल्प 1737 (2006) के अनुसरण में स्थापित सुरक्षा परिषद समिति के निर्णय के अनुसार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प 1747(2007) द्वारा ईरान से हथियारों तथा अन्य संबंधित सामग्री के निर्यात पर रोक लगाने से संबंधित संकल्प 1747 (2007) के पैरा 5 के उल्लंघन में सहायता करने के कारण अभिहित किया गया था। (अतिरिक्त सूचना: राष्ट्रीयता: ईरान, पासपोर्ट संख्या: 660505, 9003213),
2. अली अकबर तबाताबेई (**उर्फ सैय्यद अकबर तहमासेबी**), क्यूओडीएस बल के कमांडर मेजर अधीन जनरल कासेम सोलेमानी के गतिविधियां चलाने वाला आईआरजीसी क्यूओडीएस बल का सदस्य जिसे तारीख 18 अप्रैल, 2012 के संकल्प 1737 (2006) के अनुसरण में स्थापित सुरक्षा परिषद समिति के निर्णय के अनुसार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प 1747 (2007) आयुध द्वारा ईरान से तथा संबंधित सामग्री के निर्यात का प्रतिषेध करते हुए संकल्प 1747(2007) के पैरा 5 के भंग को सुकर बनाने के कारण अभिहित किया गया था। (अतिरिक्त सूचना: राष्ट्रीयता: ईरान, जन्म की तारीख: 1967),

उपाबंध-2**जब्त आयुध के अध्यक्षीन अस्तित्व**

1. **बेहीनेह ट्रेडिंग कं.:** एक ईरानी कम्पनी, जिसने मेजर जनरल कासेम सोलेमानी के निर्देशन में ईरान से पश्चिम अफ्रीका के लिए हथियारों के अवैध हस्तांतरण में एक अहम भूमिका निभाने और आईआरजीसी क्यूओडीएस बल की ओर से कार्य करने के लिए तारीख 18 अप्रैल, 2012 के संकल्प 1747 (2007) द्वारा हथियारों के प्रेषण को पोत से ले जाने के कारण अभिहित किया गया था। (अतिरिक्त सूचना: अवस्थिति: तावाकोली भवन, 15वीं गली के सामने, इमाम जोहे स्ट्रट, तेहरान, ईरान, दूरभाष: 989195382305 वेबसाइट: <http://www.behinchco.ir>),
2. **एसएडी आयात निर्यात कंपनी:** एसएडी आयात निर्यात कंपनी जिसने तारीख 18 अप्रैल, 2012 के संकल्प 1737 (2006) के अनुसरण में स्थापित सुरक्षा परिषद समिति के निर्णय के अनुसार परचीन रासायनिक उद्योग तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा अभिहित अस्तित्व सेवेंथ ऑफ तीर इंडस्ट्रीज, संकल्प 1747 (2007) के पैरा 5 के अतिक्रमण में सहायता की है। अवस्थिति: हफ्तोम तीर स्क्वायर, साउथ माफ्ते एवेन्यु, तोर लाईन संख्या 3/1, तेहरान ईरान (2) डा.घ. 158464813,
3. **यास एयर:** यास एयर पार्स एयर का नया नाम है जो एक कंपनी है जिस का स्वामित्व पार्स एविएशन सर्विसेज कंपनी के पास था, जिसे तारीख 18 अप्रैल, 2012 के संकल्प 1737 (2006) के अनुसरण में स्थापित सुरक्षा परिषद समिति के निर्णय के अनुसार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प 1747 (2007) द्वारा अभिहित किया गया था, अवस्थिति मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, टर्मिनल संख्या 6 के बाद, तेहरान, ईरान, संस्था पार्स एविएशन सर्विसेज कंपनी ने संकल्प 1747 (2007) के पैरा 5 के अतिक्रमण में सहायता करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प 1747 (2007) द्वारा अभिहित किया गया था।

[फा. सं. एल- 152/4/2010]

नवतेज सिंह सरना, अपर सचिव (आईओ)

टिप्पणी: मुख्य आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) तारीख 4 नवंबर, 2011 में संख्या का आ. 2505 (अ) द्वारा प्रकाशित हुआ था।

**MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS
ORDER**

New Delhi, the 18th December, 2013

S.O. 3691 E).- In exercise of the powers conferred by section 2 of the United Nations (Security Council) Act, 1947, the Central Government hereby makes the following amendments to the Implementation of Security Council Resolution 1929 (2010) on Non-Proliferation Order, 2011, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O.2505(E), dated the 4th November 2011, namely:-

1. This Order may be called the Implementation of Security Council Resolution 1929 (2010) on Non-proliferation (Amendment) Order, 2013
It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
2. In the said Order, in paragraph 2, -
 - (a) in sub-paragraph (iii), after the word, figures and brackets "Resolution 1737 (2006)", the words and figures "as specified in Schedule V" shall be inserted;
 - (b) in sub-paragraph (iv), after the words "determined by the Council or the Committee", the words and figure "as specified in Scheduled V" shall be inserted;
 - (c) in sub-paragraph (ix), after the words, "designated by the Security Council or by the Committee", the words and figure "as specified in Schedule V" shall be inserted.
 - (d) after Schedule IV, the following Schedule shall be inserted, namely:-

SCHEDULE-V

Annex I

Individuals subject to assets freeze and travel ban

1. Azim Aghajani (aka Azim Adhajani), Member of the IRGC-Qods Force operating under the direction of Qods Force Commander, Major General Qasem Soleimani who was designated by the UN Security Council in resolution 1747(2007), facilitated a breach of paragraph 5 of resolution 1747 (2007) prohibiting the export of arms and related material from Iran. (Additional information: Nationality: Iran, Passport Number: 6620505, 9003213), in accordance with the decision of the Security Council Committee established pursuant to resolution 1737 (2006), dated the 18th April, 2012.
2. Ali Akbar Tabatabaei (aka Sayed Akbar Tahmaesebi), Member of the IRGC Qods Force operating under the direction of Qods Force Commander, Major General Qasem Soleimani who was designated by the UN Security Council in resolution 1747 (2007); facilitated a breach of paragraph 5 of resolution 1747 (2007) prohibiting the export of arms and related material from Iran. (Additional information: Nationality: Iran; DOB: 1967), in accordance with the decision of the Security Council Committee established pursuant to resolution 1737 (2006), dated the 18th April, 2012.

Annex II

Entities subject to assets freeze

1. **Behineh Trading Co.:** An Iranian company that played a key role in Iran's illicit transfer of arms to West Africa and acted on behalf of the IRGC Qods Force, commanded by Major General Qasem Soleimani, designated by the UN Security Council in resolution 1747 (2007), as the shipper of the weapons consignment. (Additional information: Location: Tavakoli Building, Opposite of 15th Alley, Emam-Jomeh Street, Tehran, Iran, Telephone: 98 919 538 2305, (Website: <http://www.behinehco.ir>), in accordance with the decision of the Security Council Committee established pursuant to resolution 1737 (2006), dated the 18th April, 2012.
2. **SAD Import Export Company:** SAD Import Export Company has assisted Parchin Chemical Industries and 7th of Tir Industries, a United Nations designated entity, in violating paragraph 5 of resolution 1747 (2007), Location: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No.3/1, Tehran, Iran. (2) PO Box 1584864813, in accordance with the decision of the Security Council Committee established pursuant to resolution 1737 (2006), dated the 18th April, 2012.
3. **Yas Air:** Yas Air is the new name for Pars Air, a company that was owned by Pars Aviation Services Company, which in turn was designated by the United Nations Security Council in resolution 1747 (2007), Yas Air has assisted Pars Aviation Services Company, a United Nations designated entity, in violating paragraph 5 of resolution 1747 (2007), Location, Mehrabad International Airport, Next to Terminal No.6, Tehran, Iran, in accordance with the decision of the Security Council Committee established pursuant to resolution 1737 (2006), dated the 18th April, 2012.

[F. No.L-152/4/2010]

NAVTEJ SINGH SARNA, Addl. Secy. (IO)

Note :-The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 2505 (E), dated 4th November, 2011.